



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 101 राँची, गुरुवार,

7 फरवरी, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

5 जनवरी, 2019

संख्या-5/आरोप-1-67/2018-434 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से०, (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-पाकुड़), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध जिला कल्याण पदाधिकारी के प्रभारी के रूप में पद का दुरुपयोग कर योजनाबद्ध तरीके से राशि का अन्तरण कर विशेष व्यक्तियों और संस्थाओं को लाभ पहुँचाने, स्वेच्छाचारिता बरतने, वित्तीय नियमावली एवं झारखण्ड कोषागार संहिता का उल्लंघन करने, मिथ्या भाषण करने, साक्ष्य छुपाने, गलत दस्तावेज तैयार करने, सरकारी राशि का विचलन करने, रोकड़ पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं करने एवं सरकारी धन का छलपूर्ण निकासी करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-432/स्था०, दिनांक 05 जुलाई, 2018 द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ASHUTOSH KUAMR JHK/JAS/240	श्री आशुतोष कुमार, झा०प्र०से०, के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
